

30.6.25

JULY MONTH PORTION AND NOTES

PORTION :

पाठ : 5. हाथी

पाठ : 6. उठो लाल [कविता 1-8 lines & PM]

व्याकरण- भाग

पाठ : 5. सर्वनाम

पाठ : 6. विशेषण

गिनती : 1-20 लिखित

NOTESपाठ : 5. हाथी

I शब्दार्थ

Pg. no. 25

II खाली स्थान भरिए :-

क) हाथी जंगल में रहने वाला सबसे बड़ा पशु है।

ख) हाथी के चार पैर होते हैं।

ग) हाथी अपनी सूँड़ को हाथ की तरह इस्तेमाल करता है।

III दिए गए पर्यायवाची शब्दों को लिखिए :-

क) आँख - नेत्र , चक्षु , लोचन , नयन

ख) अग्नि - आग , पावक , अनल

ग) कपड़ा - पटा , वस्त्र , वसन

घ) कमल - पंकज , जलज , सरोज

ङ) अमृत - सुधा , पीयूष , सोम

च) किरण - रश्मि , कर , अंशु

IV मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

क) हाथी किस प्रजाति का जीव है ?

उत्तर: हाथी ऐलिफैंटिडे प्रजाति का जीव है ।

ख) वह सूँड़ से क्या काम करता है ?

उत्तर: वह सूँड़ से हाथों का काम करता है ।

ग) वह अपनी सूँड़ से क्या मुँह तक ले जाता है ?

उत्तर: वह अपनी सूँड़ से भोजन व पानी मुँह तक ले जाता है ।

घ) हाथी के पैर कैसे दिखते हैं ?

उत्तर: हाथी के पैर खंभे के समान दिखते हैं ।

लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

क) हाथी किसके साथ रहना पसंद करते हैं ?

उत्तर: हाथी हमेशा अपने साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं।

ख) हाथी क्या-क्या खाता है ?

उत्तर: हाथी नारियल, कैले, घास, पत्ते, गन्ना आदि खाता है।

ग) हाथी किस देवता की सवारी था ? उसका रंग कैसा था ?

उत्तर: हाथी इन्द्र देवता की सवारी था जिसका रंग सफ़ेद था।

घ) हाथी को कौन-सा खेल पसंद है ?

उत्तर: हाथी अपनी सूँड़ में पानी भरकर अपने शरीर पर फेंकने का खेल बहुत पसंद करता है।

पाठ: 6. उठो लाल

I कविता 1-8 lines in class

II शब्दार्थ :-

pg. no. 31

III दिए गए शब्दों के लिए एक-एक पर्यायवाची शब्द लिखिए:-

क) सूरज - सूर्य

(ग) धरती - पृथ्वी

ख) फूल - पुष्प

(घ) पानी - जल

10 इ, ई और ओ की मात्रा वाले एक-एक शब्द
कविता में से खोजकर लिखिए :-

इ - चिड़ियाँ

ई - लाली

ओ - उठो

11 दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए :-

क) कली - कलियाँ

ख) चिड़िया - चिड़ियाँ

ग) फूल - फूलों

घ) किरण - किरणें

12 नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर
लिखिए :-

1. मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। माँ

2. मुझे पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। पुस्तकें

3. मेरा शहर बहुत सुंदर है। शहर

4. मैं भारत देश की निवासी हूँ। भारत देश

ज) मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

क) कविता में किस समय का वर्णन है ?

उत्तर: कविता में प्रातः काल का वर्णन है।

ख) 'कलियाँ मुसकाईं' का क्या अर्थ है ?

उत्तर: 'कलियाँ मुसकाईं' का अर्थ है - सुबह सूरज निकलने पर कलियाँ खिल जाती हैं अर्थात् कली फूल में परिवर्तित हो जाती हैं।

ग) सूरज कब निकलता है ?

उत्तर: सूरज सुबह होने पर निकलता है।

घ) माँ किसे जगा रही हैं ?

उत्तर: माँ अपने पुत्र को जगा रही हैं।

ङ) माँ क्या लेकर आई हैं ?

उत्तर: माँ अपने पुत्र को जगाने के लिए पानी लेकर आती हैं।

ज) लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

क) कौन किसे आँखें खोलने के लिए कह रहा है ?

उत्तर: माँ अपने पुत्र को आँखें खोलने के लिए कह रही हैं।

ख) जल में किस्की और कैसी छाया पड़ रही है ?

उत्तर जेल में सूरज की सुनहरी छाया पड़ रही है।

ग) नभ में क्या बदलाव आया ?

उत्तर: सुबह सूरज के उगने पर नभ में लाली छा गई है।

घ) कौन से समय को सुंदर समय कहा गया है ?

उत्तर: जब सुबह होने पर सूरज निकलता है, कवि ने उस समय को सुंदर कहा है।

ङ) चिड़ियाँ कब और कहाँ चहचहाती हैं ?

उत्तर: सूरज सुबह निकलने पर पेड़ों पर चिड़ियाँ चहचहाती हैं।

व्याकरण भाग : 5. सर्वनाम

I दिए गए शब्दों में से सज्ञा और सर्वनाम शब्द

अलग-अलग लिखिए :-

क) सज्ञा - माँ, सड़नी, कबूतर, मित्रता

ख) सर्वनाम - मैं, तुम्हें, उनसे, हमारा

II सही सर्वनाम शब्द से खाली स्थान भरिए :-

क) शीमा सुंदर चित्र बनाती है। उसे चित्रकला प्रतियोगिता

में पुरस्कार मिला।

ख) जमान में घर के पास रहता है। वह रोज मेरे साथ खेलता है।

ग) आज बहुत सारा गुड्कार्ड मिला था, मैंने साझा कर लिया है।

घ) कल कौन घूमने जा रहा है?

III दिए गए सर्वनाम शब्दों की सही जगह लिखिए :-

क) पुरुषवाचक सर्वनाम - मैं, तुम

ख) प्रश्नवाचक सर्वनाम - क्या, कहाँ

ग) निजवाचक सर्वनाम - स्वयं, अपने-आप

घ) संबंधवाचक सर्वनाम - जो, जिसने

IV रंगीन संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द लिखकर अनुच्छेद लिखिए

उत्तर: मयंक शहर में रहता है। उसका घर बहुत सुंदर है।

उसके घर के पास एक पार्क है। वह और उसकी बड़ी

बहन रोज सुबह सैर करने जाते हैं। उसकी बहन

उससे दो साल बड़ी है। वह और उसकी बहन एक

ही स्कूल में पढ़ते हैं।

५ दिए गए शब्द किस सर्वनाम के उदाहरण हैं ?

क) मैं, हम - पुरुषवाचक सर्वनाम

ख) कैसा, कौन - प्रश्नवाचक सर्वनाम

ग) किसी, कहीं - अनिश्चयवाचक सर्वनाम

घ) खुद, अपने-आप - निजवाचक सर्वनाम

6) ५ सर्वनाम किसे कहते हैं ? ये कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर: संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम के छह प्रकार हैं -

* पुरुषवाचक सर्वनाम

* निश्चयवाचक सर्वनाम

* अनिश्चयवाचक सर्वनाम

* प्रश्नवाचक सर्वनाम

* संबंधवाचक सर्वनाम और

* निजवाचक सर्वनाम

7. निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ?

उत्तर: जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

उपाकरण भाग: 6. विशेषण

1. विशेषण शब्दों पर गोला लगाओ :-

क) एक मैं आलसी आप
 हरा मीठा दौड़ता आधा
 ऊँचा छोटा लाल रमन

2. उचित शब्द से वाक्य पूरे कीजिए :-

क) नीबू खट्टा होता है।
 ख) कुत्ता बफ़ादार जानवर है।
 ग) हिरन फुत्तीला होता है।
 घ) मुझे लाल गुलाब पसंद है।
 ङ) ईख मीठी होती है।

3. विशेषण और विशेष्य अलग - अलग लिखिए :-

क) हरी मिर्च	हरी	मिर्च
ख) नीला आकाश	नीला	आकाश
ग) चमकीला तारा	चमकीला	तारा
घ) सतरंगी इंद्रधनुष	सतरंगी	इंद्रधनुष

4. विशेषण किसे कहते हैं ?

उत्तर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं।

5. संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं ?

उत्तर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।

गिनती (1-20)

एक - 1

ग्यारह - 11

दो - 2

बारह - 12

तीन - 3

तेरह - 13

चार - 4

चौदह - 14

पाँच - 5

पन्द्रह - 15

छह / छठह - 6

सोलह - 16

सात - 7

सत्रह - 17

आठ - 8

अठारह - 18

नौ - 9

उन्नीस - 19

दस - 10

बीस - 20

[Complete all the book back exercises also]